



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 18—अगस्त 24, 2012 (श्रावण 27, 1934)  
No. 33] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 18—AUGUST 24, 2012 (SRAVANA 27, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## विषय-सूची

पृष्ठ सं.	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	651
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	807
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	3
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1165
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.....	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.....	*
भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	1451
भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस.....	*
भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	*
भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.....	5361
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.....	671
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण.....	*

\*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

## CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....	651	Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .....	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.....	807	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) .....	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	3	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .....	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence .....	1165	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India .....	1451
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations .....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs .....	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations .....	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners .....	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills .....	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies .....	5361
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .....	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .....	671
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the -Ministries of the Government of India (other than the		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi .....	*

\*Folios not received.

## भाग I — खण्ड 1

## [PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

संसदीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 जुलाई 2012

संकल्प

सं. फा. 4(4)/2011-हिन्दी--संसदीय कार्य मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के कार्यकाल की समाप्ति पर, भारत सरकार एतद्वारा संसदीय कार्य मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन निम्न प्रकार से करती है :--

(1) गठन

इस समिति के निम्नलिखित सरकारी एवं गैर-सरकारी सदस्य होंगे :--

सरकारी सदस्य

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री  | अध्यक्ष   |
| 2. कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री | उपाध्यक्ष |
| 3. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री               | सदस्य     |
| 4. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री   | सदस्य     |

गैर-सरकारी सदस्य

(क) संसद सदस्य

लोक सभा से दो सदस्य

- |                         |       |
|-------------------------|-------|
| 5. श्री सन्दीप दीक्षित, | सदस्य |
| संसद सदस्य (लोक सभा)    |       |
| 6. श्री लाल जी टंडन,    | सदस्य |
| संसद सदस्य (लोक सभा)    |       |
| राज्य सभा से दो सदस्य   |       |
| 7. श्री पंकज बोरा,      | सदस्य |
| संसद सदस्य (राज्य सभा)  |       |
| 8. श्री मोहम्मद अदीब,   | सदस्य |
| संसद सदस्य (राज्य सभा)  |       |

(ख) संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित दो संसद सदस्य

- |                         |       |
|-------------------------|-------|
| 9. श्री दारा सिंह चौहान | सदस्य |
| संसद सदस्य (लोक सभा)    |       |
| 10. श्री प्रभात झा,     | सदस्य |
| संसद सदस्य (राज्य सभा)  |       |

(ग) अखिल भारतीय हिन्दी संस्था के प्रतिनिधि

- |                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| 11. प्रो. चंद्रदेव कवड़े,            | सदस्य |
| अध्यक्ष, हिंदी प्रचार सभा, हैदराबाद, |       |
| अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ,        |       |
| 10, विवेकानंद सोसायटी, तिलक नगर,     |       |
| औरंगाबाद-431005                      |       |
| महाराष्ट्र                           |       |

(घ) मंत्रालय द्वारा नामांकित सदस्य

- |                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| 12. श्री अनिरुद्ध जोशी,            | सदस्य |
| 212 बी. पी., एम.डी.सी., सैक्टर-IV, |       |
| पंचकुला-134114                     |       |
| हरियाणा                            |       |
| 13. श्री आर. विजयन थम्पी,          | सदस्य |
| दीसीया हिन्दी अकादमी,              |       |
| पेरुंगुड़ी पोस्ट ऑफिस, चिरायिंकीज, |       |
| तिरुवनंतपुरम,                      |       |
| केरल-695305                        |       |
| 14. श्री मधुकर उपाध्याय,           | सदस्य |
| 126, समाचार अपार्टमेंट             |       |
| मयूर विहार, फेज-1                  |       |
| दिल्ली-110091                      |       |
| 15. श्री कैलाश सेंगर,              | सदस्य |
| संकल्पना,                          |       |
| प्लॉट नं. 11-23, एस. वी. नगर,      |       |
| म्हाडा कॉलोनी, अंधेरी (पश्चिम),    |       |
| मुंबई।                             |       |

(ड) केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् के प्रतिनिधि	(ग) यदि किसी सदस्य के त्यागपत्र अथवा मृत्यु आदि के कारण समिति में कोई स्थान रिक्त होता है तो उसके स्थान पर नियुक्त किए गए सदस्य का कार्यकाल शेष अवधि के लिए होगा।
16. श्रीमती सरोज शर्मा, सहायक प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001	(4) सामान्य
(च) गृह मंत्रालय द्वारा नामित सदस्य	समिति का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में होगा तथा समिति की बैठकें केवल दिल्ली में ही आयोजित की जाएंगी।
17. श्री राजेन्द्र सिंह गण्डूरा, 53, मंगल विहार, अलवर, राजस्थान।	(5) यात्रा भत्ते तथा अन्य भत्ते
18. श्री नरेश काकौत, ग्राम व पोस्ट काकौत, जिला-कैथल, हरियाणा।	समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए हिन्दी सलाहकार समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 03 फरवरी, 2006 के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/20034/04/2005- रा.भा. (नीति-2) में निहित दिशा-निर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा-संशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता दिया जाएगा।
19. श्री प्रदीप जेलदार, मकान नं. 1, जेलदार भवन, ग्राम व पोस्ट झारसा, जिला-गुड़गांव, हरियाणा।	आदेश
अन्य सरकारी सदस्य	इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, लोक/राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, संसदीय राजभाषा समिति, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक और वेतन तथा लेखा कार्यालय, मंत्रिमंडल कार्य, नई दिल्ली को भेजी जाए।
20. सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय	सदस्य
21. सचिव, राजभाषा विभाग तथा भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार	सदस्य
22. संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय	सदस्य-सचिव
23. संयुक्त सचिव/निदेशक, राजभाषा विभाग	सदस्य
24. निदेशक, संसदीय कार्य मंत्रालय	सदस्य
25. उप सचिव (प्र), संसदीय कार्य मंत्रालय	सदस्य
26. उप सचिव (यु.सं.), संसदीय कार्य मंत्रालय	सदस्य
(2) कार्यक्षेत्र	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
इस समिति का कार्य संसदीय कार्य मंत्रालय में सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित विषयों तथा गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा समय-समय पर निर्धारित नीति के कार्यान्वयन के बारे में मंत्रालय को सलाह देना होगा।	नई दिल्ली, दिनांक 24 जुलाई 2012
(3) कार्यकाल	संकल्प
समिति का कार्यकाल उसके गठन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा, बशर्ते कि :-	सं. 24012/29/2011-स्था. (ख)--भारत सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में श्रेणी-III (अब समूह ग) (अतकनीकी) पदों की भर्ती करने के लिए भारत सरकार के कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग में उसके संकल्प सं. 46/1 (एस)/74-स्था. (ख) तारीख 04 नवम्बर, 1975 द्वारा अधीनस्थ सेवा आयोग के नाम से एक आयोग का गठन किया था जिसे तत्पश्चात् 26 सितम्बर, 1977 से कर्मचारी चयन आयोग के रूप में पुनः पदाभिहित किया गया है। कर्मचारी चयन आयोग के कृत्यों का समय-समय पर विस्तार किया गया था और कर्मचारी चयन आयोग के गठन और कृत्य संकल्प सं. 39018/01/1998-स्था. (ख)-खण्ड-II तारीख 14.01.2011 द्वारा और परिवर्तित किए गए थे।
(क) कोई भी सदस्य, जो संसद सदस्य है, संसद का सदस्य न रहने पर इस समिति का भी सदस्य नहीं रहेगा।	
(ख) समिति के पदेन सदस्य उस समय तक सदस्य बने रहेंगे जब तक वे उन पदों पर हैं, जिसके कारण वह समिति के सदस्य हैं।	

2. अब संकल्प सं. 39018/01/1998-स्था. (ख)-खण्ड-II तारीख 14.01.2011 में तुरंत प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है, अर्थात् :--

(क) तारीख 14.01.2011 के संकल्प के पैरा 2क(i) में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :--

“पैरा 2क(i)-भारत सरकार और उसके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में वेतन बैंड-2 और वेतन बैंड-1 में ग्रेड वेतन 4,800/- रु. तक आने वाले समूह 'ख' (अराजपत्रित) और समूह 'ग' (अतकनीकी) पदों पर प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती करना सिवाय ऐसे पदों के जिन्हें कर्मचारी चयन आयोग के कार्यक्षेत्र से विशिष्ट रूप से छूट दी गई है।”।

(ख) तारीख 14.01.2011 के संकल्प के पैरा 2क(ii) में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा--

“पैरा 2क(ii)-भारत सरकार के अधीन वेतन बैंड-2 और वेतन बैंड-1 में ग्रेड वेतन 4,800/- रु. तक आने वाले ऐसे अराजपत्रित पदों पर साक्षात्कार के माध्यम से चयन द्वारा भर्ती करना जो आयोग के विवेकानुसार छंटनी या कौशल परीक्षण के पश्चात् हो।”।

यू. एस. चट्टोपाध्याय  
अवर सचिव

टिप्पणी--मुख्य संकल्प सं. 39018/01/98-स्था. (ख)-खण्ड-II भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 1, खंड 1 तारीख 17 जनवरी, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

## MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

New Delhi, the 23rd July 2012

## RESOLUTION

No. F. 4(4)/2011-Hindi—On the conclusion of the tenure of the Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Parliamentary Affairs, Government of India hereby reconstitute the Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Parliamentary Affairs as under :—

## (1) Composition

The following will be the Official and Non-Official Members of the Committee :—

## Official Members

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Minister of Parliamentary Affairs and Minister of Water Resources  | Chairman      |
| 2. Minister of State in the Ministry of Agriculture, Minister of State in the Ministry of Food Processing Industries and Minister of State in the Ministry of Parliamentary Affairs | Vice-Chairman |
| 3. Minister of State (Independent Charge) of the Ministry of Development of North Eastern Region and Minister of State in the Ministry of Parliamentary Affairs                     | Member        |
| 4. Minister of State in the Ministry of Parliamentary Affairs   | Member        |

## Non-Official Members

## (a) Members of Parliament

Two Members from Lok Sabha

- |  |        |
|--|--------|
| 5. Shri Sandeep Dikshit,<br>Member of Parliament (Lok Sabha) | Member |
| 6. Shri Lalji Tandon,<br>Member of Parliament (Lok Sabha)    | Member |
| Two Members from Rajya Sabha                                 |        |
| 7. Shri Pankaj Bora,<br>Member of Parliament (Rajya Sabha)   | Member |
| 8. Shri Mohammed Adeb,<br>Member of Parliament (Rajya Sabha) | Member |

## (b) Two Members of Parliament Nominated by Parliamentary Committee on Official Language

- |   |        |
|---|--------|
| 9. Shri Dara Singh Chauhan,<br>Member of Parliament (Lok Sabha) | Member |
|---|--------|

- |   |        |
|---|--------|
| 10. Shri Prabhat Jha,<br>Member of Parliament (Rajya Sabha) | Member |
|---|--------|

## (c) Representative of All India Hindi Institution

- |  |        |
|--|--------|
| 11. Prof. Chandradev Kawre,<br>Chairman, Hindi Prachar Sabha, Hyderabad,<br>Akhil Bhartiya Hindi Sanstha Sangh,<br>10, Vivekanand Society, Tilak Nagar,<br>Aurangabad-431005 (Maharashtra) | Member |
|--|--------|

## (d) Members Nominated by the Ministry

- |  |        |
|--|--------|
| 12. Shri Aniruddh Joshi,<br>212 BP, MDC, Sector-IV,<br>Panchkula-134114,<br>Haryana  | Member |
| 13. Shri R. Vijayan Thampi,<br>Deseeya Hindi Academy,<br>Perunguzhi P.O., Chirayinkeezh,<br>Thiruvananthapuram,<br>Kerala-695305 | Member |
| 14. Shri Madhukar Upadhyaya,<br>126, Samachar Apartment,<br>Mayur Vihar, Phase-I,<br>Delhi-110091                                | Member |

- |  |        |
|--|--------|
| 15. Shri Kailash Sengar,<br>Sankalpana,<br>Plot No. 11-23,<br>S. V. Nagar, Mahada Colony,<br>Andheri (West) Mumbai | Member |
|--|--------|

## (e) Representative of Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad

- |   |        |
|---|--------|
| 16. Smt. Saroj Sharma,<br>Assistant Manager,<br>Reserve Bank of India, Parliament Street,<br>New Delhi-110001 | Member |
|---|--------|

## Members Nominated by Ministry of Home Affairs

- |   |        |
|---|--------|
| 17. Shri Rajender Singh Gandura,<br>53, Mangal Vihar,<br>Alwar, Rajasthan | Member |
|---|--------|

18. Shri Naresh Kakaut,  
Village and Post Kakaut  
District-Kaithal, Haryana

Member

(c) If any vacancy is caused on the Samiti due to resignation or death etc. of any Member, the Member appointed in his place, will be Member of the Samiti for residual term.

19. Shri Pradeep Zaildar,  
House No. 1, Zaildar Bhawan,  
Village and Post Jharsa,  
Distt. Gurgaon, Haryana

Member

(4) General

Head Office of the Samiti will be in New Delhi and the meetings will be held in Delhi only.

## Other Official Members

(5) T. A. and Other Allowances

20. Secretary, Ministry of Parliamentary Affairs

Member

T. A. and D. A. will be paid to the non-official Members of the Hindi Salahkar Samiti for attending the meetings of the Committee according to the scheduled rates and Rules as laid down in the Office Memorandum No. 11/20034/04/2005-O.L. (Policy-2) dated 3 February, 2006 and as amended by the Government of India from time to time.

21. Secretary, Department of Official Language  
and Hindi Advisor to the Government of  
India

Member

22. Joint Secretary,  
Ministry of Parliamentary Affairs

Member-  
Secretary

## ORDER

23. Joint Secretary/Director, Department of  
Official Language

Member

A copy of this Resolution may be forwarded to all State Governments and Union Territories Administrations, All Ministries and Department of the Government of India, President Sectt., Prime Minister's Office, Cabinet Sectt., Lok/Rajya Sabha Sectt., Planning Commission, Parliamentary Committee on Official Language, Comptroller and Auditor General of India and Pay and Accounts Office, Cabinet Affairs, New Delhi.

24. Director,  
Ministry of Parliamentary Affairs

Member

25. Deputy Secretary (Admn.)  
Ministry of Parliamentary Affairs

Member

This Resolution may be published in the Gazette of India for information of the public.

26. Deputy Secretary (YP)  
Ministry of Parliamentary Affairs

Member

## (2) Functions

R. C. KHWAJA  
Jt. Secy.

The functions of the Samiti will be to advise the Ministry on matters relating to the progressive use of Hindi in Official use in the Ministry of Parliamentary Affairs and Implementation of policy laid down by the Ministry of Home Affairs (Deptt. of Official Language) from time to time.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND  
PENSIONS  
(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING)

## (3) Tenure of Office

New Delhi, the 24th July 2012

Tenure of Office of the Samiti will be for a period of three years from the date of its composition, provided that :—

## RESOLUTION

(a) Any Member who is Member of Parliament as soon as he ceases to be a Member of Parliament, will also cease to be a Member of this Samiti.

(b) Ex-Officio Members of the Samiti will continue to be Members till they hold the post, by virtue of which they are Members of the Samiti.

No. 24012/29/2011-Estt. (B)—Government of India in the Department of Personnel & Administrative Reforms vide its Resolution No. 46/1(s)/74-Estt. (B) dated 4th November, 1975 constituted a Commission called the Subordinate Services Commission which has subsequently been re-designated as Staff Selection Commission effective from the 26th September, 1977 to make recruitment to various Class III (now Group 'C') (non-technical) posts in the various Ministries/Departments

of the Government of India and in Subordinate offices. The functions of the Staff Selection Commission was enlarged from time to time and, the Constitution and functions of the Staff Selection Commission were modified further vide Resolution No. 39018/01/1988-Estt.(B)-Vol.II dated 14.01.2011.

2. It has now been decided to make following amendments to the Resolution No. 39018/1/98-Estt.(B)-Vol.II dated 14.01.2011 with immediate effect, namely :—

(a) In para 2A.(i) of the Resolution dated 14.01.2011, the existing entry shall be substituted as—

"Para 2A. (i)—make recruitment to Group 'B' (Non-gazetted) and Group 'C' (Non-technical) posts under Government of India and their attached and subordinate offices, except those post which are specifically exempt from the purview of the Staff Selection Commission, in Pay Band-2 and Pay Band-1

carrying Grade Pay upto Rs. 4,800/- through conduct of competitive examinations."

(b) In para 2A. (ii) of the Resolution dated 14.01.2011, the existing entry shall be substituted as—

"Para 2A. (ii)—make recruitment to such non-gazetted posts under Government of India by selection through interviews, in Pay Band-2 and Pay Band-1 carrying Grade Pay upto Rs. 4,800/-, which may, at the discretion of the Commission, be preceded by a shortlisting or skill test".

U. S. CHATTOPADHYAY  
Under Secy.

Note :—The Principal Resolution was published vide No. 39018/01/98-Estt.(B)-Vol.II in the Extra Ordinary Gazette of India Part 1, Section 1 dated 17th January, 2011.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित  
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2012  
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND  
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2012